CIN-L21012UP1990PLC011878 REGISTERED OFFICE NC. Chadha Estate, Nanital Road

> Tehsil Bilaspur - 244921 Distt. Rampur (UP) Ph.No.- 0120-4325461, 4120849

Email Id:-chadhapapersltd@gmail.com Website:-www.chadhapaperslimited.com

CORPORATE OFFICE

B – 5, Sector – 52 Noida – 201301 (UP)

0120 - 4106161

Date: 07/09/2016

BSE Limited
Phiroze Jeejeebhoy Towers
Dalal Street
Mumbai- 400001

Reference:- Chadha Papers Limited

Scrip Code:- 531946

Sub: Information published in the newspaper of the Board Meeting as per Regulation 47 of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations 2015.

Dear Sir/Madam,

Please find enclosed herewith the information published in one English and in one daily newspaper in the language of the region, where the registered office is situated regarding the notice of the Board Meeting as per the requirement of Regulation 47 of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations 2015.

This is for your information and records.

Thank You

For Chadha Papers Limited

Shifali Arora

(Company Secretary/Compliance Officer)

UP ASSEMBLY ELECTIONS 2017

Rahul promises farm debt waiver



KVB to position itself as specialised SME bank

| Image: Comparison of the Content of the Park and Separation of the Properties of the Park and Separation of the Properties of the Park and Separation of the Properties of the Park and Separation of the Separation of the Park and Separa

Equitas SFB ensures ₹550-cr deposits

Chemsal, 65spambet

Equitas. Small Finance Bank, launched by Equitas. Flodlings on Monday, has ensured around 2550 croor of deposit in the first few months from the small savings of its 2.6 million existing customers, asistic with three branches, will add angicultural finance, business loans and gold loan businesses in six months, saving management of the swall savings of the small savings of the swall sa

une 2016.

The above information is also variable on the website of the ompany i.e www.chadhapapersilmited.com do nite website of the Stock xchanges where the shares of the ompany are listed i.e on www.beshuffa.com

For Chadha Papers Limite

Sd (AMANBIR SINGH SETHI

MEGRI SOFT LIMITED

Regd. Off. S.C.O. 80. Sector 47-D, Chandigarh-160047, CIN:L72200CH1992PLC011996, Phone No.: 0172-2631550, Fax: 0172-5012787, Email:legal@megtisoff.net. Website.www.magris

CMLT2200CH1907EQCT011988, Phose No. 0172-2831559.

CRX 0172-501725, multi-pal/primption for Webbitz www.praylaid.com

NOTICE OF ABOX & DOOK CLOSURE

NOTICE

CHADHA PAPERS LIMITED CIN-12/01/2JP1989PL001/878 REGISTERED OFFICE: CHADHAESTATE. | Order 5, Rule 20 of the Code of Chall Proceedings)

Corder S. Kulie 20 of the Code of Child Procedure)
IN THE COURT OF MAN SIGNAM S

THE DEFENDANT ABOVE NAMED

final disposal, it will be heard and rmined ex-parte. an under my hand and the seal of court, this 19.08.2016. CIVIL JUDGE -10 (CENTRAL) DELHI

NOTICE

NOTICE
IT equity shares of Vardhman
Special Steets Limited.
Chandigarh Road, Ludhiana
held by Surendra Kumar Folio
No. 8043 (Distinctive Nos.
7661566-7661602), have been
lost and they applied for issue of
duplicate Share Certificates.
Anyone having objection to the
same may apply to the Company
within 15 days of this notice
othorwise, the Company shall
proceed to issue duplicate Share
Certificates. comprising Discovery Network channels, named Discovery Channel, Animal Planet, TLC, Discovery Science, Discovery Turbe, Discovery Kilds, Discovery Channel Tank ID-Investigation Discovery, Discovery By World, Amina Planet HD World TLC HD World are likely to be disconnected after three weeks from today due to following resons:

Business Standard

LUCKNOW EDITION

Printed and Published by Nandan Singh
Rawat on behalf of Business Standard
Private Immited and printed at Amai Vijala
Publications Ltd., B-S. Amausi Industrial

For Subscription and Occulation-enquiries please contact: Miss Many Singh Many Singh Singh Singh Singh Singh Business Standard Privable Limited. 3rd 4-th floor, Bailding Si. Nagan Conclamination, Upp Century Mile, P B Many, Worlf, Munth- - 400 013 E-mails sable, BioGlobsmail.in "or sins, SUR BS 10 57007"

No Air Surcharge

PUBLIC NOTICE
This is to inform the consumers and signals of the subscribed orientates securities (Purchase Department) Kasturba Hospital, Bhoppal Phone no. 0755-250(331/250(330) Fax no. 0755-250(031) Tender Notice

Ratio Contract For Reagents For Cell Counter With Suppliers Contractors Own Machine For The Period Of Two Year's for Patholog Department Of Kasturba Hospital.

The Prior Boll Province For Period Province For Section Commercial Bild Suber Prior Boll juil different saladed en revelopes Tender on 1 MM / MBD E-94180371. The due date of opening for Techno commercial Bild is or 1.09.2018 Broce Bild or 20.09.216. Supply of reagents for Cell Counter Commercial Bild is or 1.09.2018 Broce Bild or 20.09.2016. Supply of reagents for Cell Counter Co

Discoms | Industries Buy 24x7 power at a low cost Electricity Market: Price & Volume-August 2016 DAY-AHEAD MARKET 3,445 Average Daily Volume (MU) Area Prices (Rs/kWh) Average East, North East, West 0.70 4.40 2.13 North (N3) 2.33 0.90 2.39 0.70 5.20 TERM-AHEAD MARKET RM-AHEAD Intraday Day-ahead Contingency Total Volume (MWh) 10,759 10,018 14,400 Max Price (Rs/kWh) 4.30 4.00 MU = Million Unit REC Market: Price & Volume-31 August 2016 Volume (REC) Price (Rs/REC) Non-Solar 1,36,352



SAVE UP TO ₹14,694 PER YEAR* WITH **BUSINESS STANDARD** PREMIUM

Get seamless access to business-standard.com6 WSJ.com starting at just ₹49 per month*

n enriching online experience with exclusive ontent & a world of benefits Access WSJ.com with your Business Standard digital account Flead opinion pieces by award-winning journalists and columnists Get focused newsletters on companies and industries of your interest Track your portfolio real-time Have a non-intrusive ad-free experience husiness-standard.com

business-standard.com

Of PUBLISH SHAPE TO COMMITTEENS. Please read the terms calefully before upning broad document and WSD are medianistic of Davidovanie Governors, feet.

🚼 bsindia 🌅 bsindia 🌐 Businoss Standard Readers Group

GITANJALI

Gitanjali Gems Limited

CIN: L36911MH1886PL040689 ,L3cini Tover, Bandra Kurla Cumplex, Bondra Æ Mumbai - 400051 řel± 022 4035400001; Fac 022 4010 2005 rs:Sgitanjskig oup.com ; Websife: www.gitanjaligcoup.com

Discovery

100 ft. America: Phononor-1, d ffelia; New York-1920ab

The control of the control design (ALIA) of the Marties of plants bend clareds, bands a Early, Marele — All III of a Florid, McC. A Section for the Company is not be held all Dombay that, first florid, McC. Alexandra Certific, McC. 2 is that, Bands beld is Company. Bands a Early, Marele — All III of its of florid, 20th describes. 2016 at 3 00 am in branch at the Entrol control of the III of III of the III of III

mindestability all productions of the Companies of the Co

request to device a least of sections of the control of the contro

STL SHYAM TELECOM LIMITED Operation of the property of the pr NOTICE OF THE TWENTY THRD ANNUAL GENERAL MEETING REMOTE E-VOTING INFORMATION AND BOOK CLOSURE

NOTICE OF THE TWENTY THIS DAY.

NOTICE IS THE TWENTY THIS DAY.

NOTICE IS THE TWENTY THIS DAY.

NOTICE IS THE TWENTY THIS DAY.

2000/2019 any obtain key in the and "resource from the Keyatirar of the Company." The shareholders are caption of the company of the Vising, i.e. the physically by statiscrays (ASM or evoling). If any shareholders opt for evoleng, the site will not be edipled to one physically in ASM.

A. K. K. Keksagali'S Sh. L. 10711. Paraisoning Company Secretains of this A. H. K. Kelsey a Colon bear of the Company of the Colon of

By Order of the Board For SHYAM TELECOM LIMITED

Date: - September 07, 2016



PHYSICAL POSSESSION NOTICE

FICICI Bank Limited

00

00



ज्यापाराज भीति किया (ज क्रिका) अंतरण अनुसुद्ध विका-उक्का दिन करा कि कार अंतरण अनुसुद्ध विका-उक्का दिन करा कि उक्का दुखार कि उत्तरण अनुसुद्ध विका-उक्का दुखार कि अर्थ करा कि अर्थ विका-उक्का दुखार कि अर्थ करा विका-उक्का दुखार करा कि अर्थ करा विका-उक्का दुखार करा कि अर्थ करा विका-उक्का दुखार करा अर्थ करा विका-उक्का दुखार के अर्थ करा विका-उक्का दुखार के अर्थ करा विका-उक्का दुखार के अर्थ करा विका-उक्का दुखार करा विका-उक्का दुखार

चड्ढा पेपर्स लिमिटेड

सीआईएन: L21012UP1990PLC011878 पंजीकृत कार्यात्मः यद्वदा एस्टेट, नेगीताल प बिलासपुर-244921, जिला-सम्पूर, उत्तर प्र फोन: +91-120-4325461, 4120849

सूचना तद द्वारा सुचेत किया ूप्त प्राप्त पूर्वमा मानवा जाता है कि जून, 2016 को समाप्त हुई तिमाही अन्तर्भक्षेत्रत वित्तीय परिणामी के वि ४४ने व अनुमीदन के लिए कम्पनी ानदराक भड़ल का बदक मन सितम्बर 2018 को सम्पन्न होनी उपशक्त सूचना कम्पनी की www.chadhapaperslimit

तथा स्टॉक एक्सकेंज जहां क्रम्पनी । मेयर सूरीयद्ध हैं, की वंत्रसाद् www.bseindia.com ™ कते चडढा पेपर्स लिमिटे-हस्ता / – अमनबीर सिंह रोडी पर्धाकारिक निरोधक

पूर्णकात्मक : . . . डीआईएन: 01015

स्थानः नोएडा दिनांकः 07.09.2018

राज्यों को	लागू करव	ना होगा	जीएसटी
इंदिवजल धस्माना नई दिल्ली, ७ सितंबर	जीएसटी पर मंथन	🔳 अगर राज्य इसे	व्यवस्था भी बना सकती है, अगर अन्य राज इस पर आपत्ति करें। पोद्दार ने कहा,
स्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) पर संविधान संज्ञोधन विधेयक जब कानून वन जाएगा तो उसे सभी राज्यों को लागू करना होगा, भले ही तमिलताड जैमे कछ राज्य इसका		पारित कर देते हैं तो सभी को जीएसटी लागू करना अनिवार्य होगा	'लेंकिन मुझे नहीं लगता कि अगर राज्य परियद की सिफारिश के मुताबिक जीएसटी लागू करने का विकल्प नहीं अपनाते तां वह गज्यों का टेडिन कर सकती है।' कश्यप ने कहा कि राज्य सरकोरें

हो तामलवाडु जम कुछ राज्य इमका विरोध कर रहे हैं। बहरहाल जीएसटी पिछ्ट के प्रस्ताव से इतर राज्यों को जलग जीएसटी ढांचा अपनाने की सहलियत मिल सकती है। ।लयत ।मल सकता है। ईवाई के सत्या पोहार ने विजनेस म्हेंद्रई में कहा कि ऐसा इमलिए ह

स्टेंडड में कहा कि ऐसा इस्तिल्य हैं क्योंकि नई कर क्यवस्था लागू होने की विधि के बाद से बस्तुओं की बिक्री और सेवाओं पर जीएसटी लागू होगा। संविधान विशेषज्ञ सुभाप कश्यप ने कहा, 'सर्विधान पूरे देश पर लागू होता हैं, ऐसे में नई कर व्यवस्था पंजा किए जाने के बाद से जीएसटी प्रत्येक किए जान के बाद से जाएसटा प्रत्येक राज्य पर लागू होगा। ऐसी आशंका थी कि आग कुछ राष्ट्र जीएसटी नहीं अपनाते, जैसा कि राज्य स्वर पर बैट लागू किए जाने के मामले में शुरुआत में हुआ था, तो जीएसटी शुंखला टुट सकती है। ऐसा डर इसलिए उटा, क्वोंकि राज्य सभा और लोक सभा में परिवाद मंग्नेश्वर निशेश्वर गुण हिंग संविधान संशोधन विधेयक पेश किए जाते समय अन्नाद्रम्क ने सदन मे बहिर्यमन किया था।

अन्ताद्रमुक विधेयक में कुछ बदलाव चाहती थी जिसमें अंतरराज्यीय कारोबार

लागू करना अनिवार्य होगा = गरवराज वाला थाने मुताबिक इसका वित्त मंत्रालय के

आधे से ज्यादा राज्यों से मंजूरी के बाद विधेयक को मिल सकती है राष्ट्रपति की मंजरी

पर 4 प्रतिशत अतिरिक्त कर लगाया

जाना और जहां सामान तैयार होता है

दिया जाना णामिल है।

इस राज्य को संप्रहीत कर में से हिस्सा

दिया जाना शामिल है। आधे से ज्यादा राज्यों की ओर से संविधान संशोधन विधेयक को मंजूरी मिलने के बाद उम्मीद की जा रही है कि इसे कभी भी राष्ट्रपति की मंजूरी

कि इंस कभा भा (195 मा) कर पत् प्र मिल सकती हैं। बहरहाल मीजूदा प्रारूप में कानून को लागू न करने के इच्छुक राज्यों के सामने एक रास्ता है। उन्हें परिषद द्वाग प्रस्तावित जीएसटी लागू करने की अनिवार्यता नहीं होगी और वे अलग

प्रारुप अपना सकते हैं

्राज्यस्य क मुताबिक जीएसटी न

को होगा राजस्व घाटा

विधेयक में कहा गया है कि जीएसटी परिषद केंद्र सरकार और गज्यों से कर, उपकर व अधिभार जैसे मामलों में उपकर व अभिभार जैसे मामानों में मिफारिश कर सकती है, जिन्हें वस्तु एवं सेवा कर, कर दर आदि में शामिल किया जा सकता है। अब यह मंतर और एव्य विशासकाओं पा है कि वे अपने जीएसटी विशेषक में उन सिफारिशों को स्वीकार करती हैं था नहीं। पौदार में कहा कि तमिलनाड़ मौजुदा मुख्यविधि कर ब्यवस्था लागु

रख सकता है और उसे जीएसटी नाम दे सकता है। नई व्यवस्था के तहत यह वैध होगा।

बीएम मंबाददाना

उत्तर प्रदेश में सना से तीन दशक

अपनाते तो वह राज्यों को देहित कर सकती हैं।' कश्यम ने कहा कि राज्य सरकारें अलग जीएसटी प्रारूप के बोर में फैसला कर सकते हैंं, लेकिन वह संविधान संशोधन विधेयक के दायरे में होगा।

यह पूछे जाने पर कि अगर तमिलनाडु मौजूदा वैट का विकल्प अपनाकर उसे जीएसटी नाम देता है तो अपनाकर उस जाएसटा माम देता है तो क्या इसमें शृंखला वाधित नहीं होगी, इसके बारे में पोदार ने कहा कि ऐसा नहीं होगा क्योंकि किसी दूसरे राज्य से तमिलनाड़ में आने वालि माल पर एकोकृत जीएसटी वागुहोगा, जो कंडीय जीएसटी व गण्य जीएसटी का योग है। वित्त पंत्रालय के एक अधिकारी की

कहा कि अगर कोई राज्य जीएसटी लाग् कहा कि अगर कोंडे राज्य जीएमर्टी जा। नहीं करता तो उसे गजरन का नुकसान उद्यान पड़ेगा। उन्होंने यह भी कहा कि ऐसे मामने में एक राज्य से दूसरे गज्य में बस्तु एवं सेवाएं जाने पर शृंखता दुट्टेगी। अगर ऐसे मामले में गज्य को राजस्व का नुकसान होता है तो वह केंद्र में मुआवजे की मांग नहीं कर सकता। वर्णप्रदरी जाना होने के पहले 5 साल जीएसटी लागु होने के पहले 5 साल के दौरान अगर राज्यों को राजस्व का होगा। कोई नुकसान होता है उसकी भरपाई जीएसटी पश्चिद विवाद निपटारा केंद्र सम्कार करेगी।

भारत-चिली व्यापार समझौते को विस्तार

शुभायन चक्रवर्ती नई दिल्ली, 6 मितंबर

सरकार ने मंगलवार को चिली के साथ एक समयौत सरकार ने मालवार का जिला क साथ एक समझीत पर इस्ताक्ष? किए, जिससे मौजूदा भारत चिक्ती तरजीही व्यापार समझौते (पीटीए) को विस्तार मिल गया है। इस समझौते ते शुल्का छूट वाले जिंहां को संख्या पूर्व समझौते को तुलना में 10 गुने से ज्यादा हो गई हैं, जिनका व्यापार छूट वाली दतों

पर हो सकेगा। विस्तारित पीटीए के मुताबिक दक्षिण अमेरिकी पर हो सकेगा। विकारित पंजिए के मुताबिक दक्षिण अमेरिकी देश चिला ने भारतीय नियानकों को 1,798 जिससे पर शुरूक खूट (एमओप) को पंजकर को है, विजयकों भी 30 अ ते 100 प्रतिशत है। इसी तरह से भारत ने चिला को 1,031 जिससे पर खुरू को भेशकर को है, जिसकी एमओप सोमा 10 से 100 प्रतिशत है। वाणिक्य मंत्रालय ने कहा, 'चिला के समय भारत का नियांत बास्केट विविध्योक्त है और इसकी व्यापकता को देखते हुए व्यापक शुरूकों को पंजकर को गई है। विस्तारित पीटीए से भारत के लिया पहुंचीगा, 'मार्च 2006 में प्रमुख भारत के चिला को है। विस्तारित पीटीए से भारत के चिला को 178 जिसमें पर खुट को पेशकर की थी, विस्ति से पार्टी के विस्ति से पार्टी के प्रतिशत विद्यार में भारत के चिला को 178 जिसमें पर खुट को पेशकर की थी, विस्ति से एमओप सीमा 10 से 50 प्रतिशत थी। वहीं इसरी ओर चिला ने भारत को 296 जिसमें पर खुट को पेशकर को थी, विस्ति से एमओपो सीमा 10 से 100 प्रतिशत थी। वाली इसरी अमेर चिला ने भारत को 296 जिसमें पर खुट को पेशकर को आ जिस हो एमओपो सीमा 10 से 100 प्रतिशत थी।

भारत में गजदूत एंड्रीस बार्च गों जालेज के बीच बैठक के दौरान दोनों देशों ने तस्जीही व्यापार समझौते का दायरा बढ़ाने को लेकर समझौते पर हस्ताक्षर किए। इसे कैबिनेट ने अप्रैल में मंजूरी दी थी।

करते हुन और कार्याच के बात में का ता उठ जाव तथा पारत तथा उठावाठ (वा पारता) वा पारता का रायाच्या (वा पारता कार्याच वा पारता कार्याच वा पारता कार्याच वा पारता कार्याच (वा पारता कार्याच वा पारता कार्याच कार्याच वा पारता कार्याच कार्याच वा पारता कार्याच कार्याच वा पारता कार्याच कार्या हतरण से संबंधित कारो। विदा सन्द होने की तिथि एवं समय: 03.10.2016 14.00 वजे निविद्या खोलने की तिथि एवं समय निविद्या प्रस्य होन का ाता था का सान्ता 3.10 2010, 15,80 अजे। इस हैनिविद्या का पूर्ण विद्याय पर्व निवेदा में भार तेने देनु भारतिय देन की वेदबाइट <u>ww</u> मुजारि/विदिय-11 व्यक्ति प्रस्ता पिकिस्कारीव्यानी। निविद्या व्याजी पुरविधा सम्बन्धित विद्यालयन हेतु गोबाहरून सं, छानेश्वस्ट्र त शिकायत हेतु मोबाहरू नं. 09794845955 गर को गए काले के पहले लक्षिते एवं बाएं अर

्री प्रस्ताच्या स्टब्स्ट ई-टेन्डरिंग निविदा सूचना

क्रिया है। निविदा सूचना सं. - एस एम्ड टी / कान / 19 / 2016 े अवधारिक के पूर्वत के पहुंचा के प्रकार के प्

भेने कर्नहा ह. और	त (ओं) कर नाम पता (पने)(ओं) (ग)	কর্ম নাস (ফ.) (খী)	गिरखो संपन्ति का विधरण (मी)	थकाया गशि (म.) (डी)
ज्याचीत तर मंद्र (दुल्वे माध्र ही: 451, आद्र त्रेत्रस्त्रमी, भ ७,४ -224 साथ ही: भीतत ने भी भी-38, दुम	रेष शुक्रमा शे ने, 9, ई व्यंग्य- १, न्यू उस्तमपूर- 110053. गंदूरम महायोगे, स्टाबार-	इ. 20,37,690- ट्रामी पीम मान्य सीलेस राज्य राज्य में पान के लिए कार्य स्वता क्र HHLDCP00175049 विवर्ताम पानि क्षा 16,23,523 उपाधे सीलेक साम्राज्य केर्या	क्षेपानि है : गाँकम ता - वी 3803, भीभा की-38, पुपारी माँकम विश्वसम् प्रतास्त्र विश्वसम् प्रतास्त्र वेपारिक ती गाँकपीचार - 2010013.प	क. 16,99,424/- (कर्मय भारतः ताद्य तिन्याने द्वारा भार तो प्रतिक्षा प्रथा) 17,08,2016 के अनुष्यार (क्क.9,90%) प्रति वर्षे की दर से बार्च म्यान ने साज 18,08,2016 थे क्रमचा तीवार पुरावान की अस्पीदक निर्धा

स्मव ही : माख संब, पांस्ट सम जाना, जिला बस्ती, परंग इ.प. -272001. ण साथे के मंत्रीय अनुस्तान को बगर रख को ते आवसल गरे हैं अनगार दर्शन करार गरे आमें (जी) के नाम के अंगे स्वेथ से में सि દા કે નામુશ્ક લ્લાગ કરવા પાત્ર વાત્ર (નાદ) કરવા કે કાંગ્ર કહ્યા છે. તેની ટેંગ્ડ એ એકલ લગ્ન (કિ. સ્વયુમ્લીલન કે નિયારાદ પુત્ર હોઇ તો એકલાય કાંગ્રહ કે એમ્પ્લ કાંગ્રહાનમાં પ્રાપ્યાલિકો એ સ્વયંત્ર નામેક્ટ્રહી કાંગ્રહાની મારા ટે. પ્લાપ્ત કુંચા કાંગ્રહી કુંચાના કર્યા હોઇ તેને કુંચા કુંચા તો કુંચાલા કર્યા હોઇ ક્લામાં કહ્યા કુંચા ક્યા ક્લામાં ક્લામાં ક્લામાં આવતી કેલા, 3 દ્વારા સ્વચ્ચા તેમાં સ્વચ્ચાના કે સ્વચ્ચાના કે ક્લામાં ક્લામાં ક્લામાં ક્લામાં ક્લામાં ક

विधिन सुकला

मान ही : ची-6, तक मीगल, वीर गर्ले ; आर्थिय नगर, चीन्या, टिप्प्ली -110053 :

क्लामा - 110053 साम प्री : भार्कारंग मेनेक्स रंजपीगरेक केल्पुरान्त प्रा मिन, 201 अकर प्रवास 45४, रसल्पुर, आरंपी णुम्मदेशन परण्युरंग, रिक्लो - 110082.

हिंग्चच राम शुक्रान



निकारों के लिए धन की कवाराद े किसानों का कर्ज माफ करेगी कांग्रेस

करण चौधरी न्हं दिल्ली, 6 सितंबर

शहरों को मिलकर काम करने और बॉन्ड बाजार में सक्रिय करने के लिए अपने तरह की अनोखी क्रेडिट रेटिंग पेश की गई है, जिसके माध्यम से नगर निकाय धन जुटा सकेंगे। अहमदाबाद नगर निर्गम और नई दिल्ली नगरपालिका

आर नड दिल्ला नगरभालका परिषद (एनडीएमसी) को ए-2 मेरिंग दी गई है। शहरी विकास मंत्रालय के एक बयान में कहा गया है कि कुल मिलाकर अगले साल मार्च तक 85 शहरों को क्रेटिड रिंग दी जानी है। पुणे और अहमदाबाद म्यनिसिपल बॉन्ड जारी करने के

म्युनिसमल बीन्ड जारा करने के करीब पहुंच गए हैं। अमेरिका में म्युनिसमल बॉन्ड शब्द का इस्तेमाल सड़कों, खुलां, हवाईअइडों च बुनियादी ढांचा परियोजनाओं जैसी सार्वजनिक परियोजनाओं के विमर्पाषण के लिए होता है।

र हाता ह। केंद्रीय शहरी विकास मंत्री केंद्रीय शहरी विकास मंत्री चंकिया गायडू ने अधिकारियों को निदेश दिए हैं कि राज्यों के साथ गियमित संपर्क में रहें, जिमसे कि सभी शहरी स्थानीय निकायों की क्रेडिट रेटिंग जल्द से जल्द सुनिश्चित हो सके। यह थन जुटाने के लिए स्पुनिमपल बॉन्ड जारी करने की कररी शत है।

शहरी निकायों की शुरू हो गई रेटिंग



■ पुणे और अहमदावाद जल्द जारी कर सकते हैं म्युनिसिपल बॉन्ड अगले मार्च तक 85 शहरों की और कुल 500 शहरों की क्रेडिट रेटिंग का लक्ष्य रखा गया है

मंत्रालय के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा, 'हम चाहते हैं कि शहर बॉन्ड बाजार में सक्रिय हों क्योंकि मंसाधन जुटाने साज्ञय हा बयाकि स्थापन मुदान के लिए यह जरूरी है। इसे स्थानीय निकायों को साथ मिनकर काम करने और प्रतिस्पर्ध की भावना विकसित करने को बाध्य होना पड़ सकता है। उन्होंने कहा कि अटल मिशान फारि रिजुनेशन ऐंड अर्बन नेपाकपाँगन (उमान) योजना के ट्रांसफार्मेशन (अमृत) योजना के तहत मंत्रालय 500 शहरों की रेटिंग करना चाहता है। शहरी स्थानीय निकायों की क्रेडिट रेटिंग स्थानाया नकाया का क्राइट राटन की पहल के तहत 85 शहरों की रेटिंग की प्रक्रिया चल रही है। पिछले माल शुरू किए गए नए शहरों मिशन को तेजी से लागू करने के लिए शहरी विकास मंत्रालय ने 2016-17 के लिए आवंटित

कुल फंड का 70 प्रतिशत पिछले 5 महीनों में जारी कर दिया है। अधिकारी ने कहा कि क्रेडिट रेटिंग किमी भी निजी एजेंसी में कराई जा सकती है। मंत्रालय जा सकती है। मंत्रालय के मुताबिक परियोजनाओं को तेजी से लागू करने के लिए शहरी विकास मंत्रालय ने संसाधनों के विभिन्न सेतों की चिहिनत किया है। इसमें प्रोडियन उडनास्ट्रकर इन्हेस्टमेंट बैंक (5 अरब डॉलर), एश्विमन डेक्लपमेंट बैंक (1 आरब एश्रायन इवलपमट बक (1 अरब कॉलर), जापान इंटरनैशनल कोआपरेशन एजेंगी (150 करोड़ डॉलर), बिक्सा बैंक (50 करोड़ डॉलर) प्रति शहर, एएफड़ी (यूगे 10-20 करोड़) शामिल हैं। शहरी आबाम एवं विकास निगम (हुडको) स्मार्ट मिटी गिशन को 10,000 करोड़ रुपये का समर्थन दे सकता है।

गांधी ने मंगलवार को देवरिया थी। कसान यात्रा को शुरुआत यात्रा तापभग 2,500 किमी लांबी यात्रा रुद्दपुर तहसील से शुरू होकर दिल्ली तक जाएगी। इस दौरान राहुल ने रुद्दपुर के संतामी इंटर कॉलेज में खाट मभा किया खाट सभा में किसानों से चर्चा करते ममय राहुल भाजपा और मोदी भरकार पर बसकर इसाना और सरकार पर जमकर हमला बोला। सरकार पर जमकर इसता श्रीला। गहुल ने कहा, 'न तां हमायी सरकार उत्तर प्रदेश में हैं और न ही दिल्ली में हैं। लेकिन हम किसानों और मबदुरों के दुख को अपना दुख मानवें हैं तथा हम आपके साथ मिलकर इससे लड़ने जा रहे हैं।' उन्होंने कहा, 'सैने मोदी जो मे

उत्तर प्रदेश में सत्ता से तीन दशक में बाहर कांग्रेम इस बूग किसान, मुस्तरामा और गीजवान की शरण में हैं। नुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोग के प्रवेशन में कांग्रेम के चुनाव अभिगान के पहले ज्यामें यहुल का किसानों के साथ संवाद कुस हुआ है। उत्तरिकों प्रभावने नोंद्रेस में दी पर किसानों की ममस्याओं की अनदेखों 'करने का आगेप लगाया तथा किसानों के अप को रामक किए जाते, उच्च साध्येश मुख्य अर्थार विद्वाद सुक्त के अर्थान के अप को स्वाद कांग्रेस के अर्थान की अर्थान की अर्थान की अर्थान की स्वाद क

100 A 100 किसानों को बचाने के लिए कहा क्योंकि, वे देश को अन्त उपलब्ध कराते हैं और उन्हें बचाने के लिए तीन रस्ते हैं जिन्हें आपको अपनाने को आवश्यकता है। पहला रास्ता उनका ऋण माफ करने का है। यदि आपको याद हो तो जब हमारी सरकार थी तो हमने उनका 70 हजा संस्कार थी तो हमने उनका 70 हजार करोड़ रुपये का ऋण माफ किया था। 'कांग्रेस उपाध्यक्ष ने कहा, 'अब क्या हो रहा हैं कि मोदी संस्कार ने पिछले माल बड़े उद्योगपतियों का 50 हजार करोड़ रुपये का ऋण माफ कर दिया।' उन्होंने कहा 'यदि आप बडे

उन्होंने कहा, 'यदि आप बहे लोगों का ऋण माफ कर सकते हैं तो किमानों का ऋण माफ कथे नहीं कर सकते ? जिस तरह हमने 70 हजार करोड़ रुपये का ऋण माफ किया, उस तरह आपको भी किसानों के लिए करना चाहिए। मोटी जी को देश के किमानों का ऋण माफ करना

HAPPO, N रुद्रपुर में खाद सम्मेलन में राहुल गांधी व अन्य

चाहिए।' सहुल ने कहा कि दूसरी बात यह है कि यहां आए किसानों ने उन्हें वताया कि विजली का विल न उन्हें वताया का विजला का विव यहुत ज्यादा है और यह किसानों को आहत कर रहा हैं। उन्होंने सरकार में इसे आधा तक कम करने को कहा। कांग्रेस नंता ने एज्य सरकार से कहा, 'बिजली के बिला को आधा क्यों न

कर दिया जाए।' उन्होंने कहा कि संप्रग सरकार उन्होंने कहा कि संप्रग संस्कार ने न्यूनान समर्थन मृह्य बहुाया गया था, जिसे बखाना मोदी संस्कार ने येक दिवा है गहुल ने कहा, 'हमने किसानों की मदद की, उनका एमएसपी और मनरेगा से ग्रेजगार उपलब्ध करकर पारिश्रीमक बहुाया। मोदी सरकार ने एमएसपी बढ़ाने पर रोक लगा दी है।'

बजट की तिथि में बदलाव संभव 🛭

निवेदिता मुखर्जी

केंद्र की राष्टीय जनतांत्रिक केंद्र की रिष्ट्रिय जनतात्रक गटबंकर (राज्य) सरकार दंश के लिए तए बिनीय वर्ध की व्यावहारिकता की जांच कर रही समित की राय के मुनाविक वजट की निथि में वदलाव करना चाहती है। इस समय सामान्यत्या फरवरी माह की अंतिम तिथि को वजट प्रस्तत किया जाता है। पर्व मख्य आर्थिक सलाहकार शंकर आचार्य की अध्यक्षता में गरित मर्मित को यह जांच करनी है कि क्या अप्रैल से मार्च वित्त वर्ष की जगह नया


का काम पहले शुरू हो गया। मूत्रों ने कहा कि वरिष्ट अधिकारियों ने न कहा कि वांग्ट आंधकाराया न सालाना कवायद की रूपरेखा पर काम शुरू कर दिया है। एक उच्च पदस्थ सुत्र ने कहा कि इमकी विशेषताओं पर अभी काम होना है, लेकिन व्यापक मकसद विकास ही होगा। उन्होंने कहा कि मुख्य ध्यान अमिशाना जोडोंगी गुद्धि दर और मरकारी व्यय पर होगा। उत्तर

प्रदेश सहित कुछ गव्यों में अगले माल चुनाव होने हैं। माना जा रहां है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2017-18 का बजट

बजट पेश किए जाने को तिथि पहले पेश किए जाने पर चर्चा की पहले किए जाने को यंगावनाओं है, लेकिन अब तक कोई तिथि के बीच इस माल के चजट सज तय नहीं हुई है। दो तिथियों 6 और ८ फरवरी पर विचार हो रहा है लेकिन तिथि को अंतिम रूप देने

लोकन तिर्घ को आतम स्हण् देन के पहले कुछ अहम ममलों पर विचार किया जा रहा है। दरअसल सना पक्ष और बाहरी (विपक्षी दलों सहित) तोग बजट को तिथि में किसी तरह के बदलाब के खिलाफ हैं। अधिकारियों का मानना हैं कि फरवरी में पहले बजट पेश किए जाने के पीछे मकसद यह है कि मार्च के आखिर तक 1 अप्रैल मे

बीएस सूडोकू 2604 परिणाम संख्या 2603



Maria.	51918	erge	200	gUya.	200	GRV:	000020	6000	53374
	2	5	1	8	6	9	3	4	7
	3	9	7	5	4	1	2	8	6
	8	6	4	2	3	7	1	9	5
1977	1	2	3	9	7	6	8	5	4
	9	8	6	4	1	5	7	3	2
	4	7	5	3	8	2	9	6	1
	7	3	8	1	5	4	6	2	9
	6	4	9	7	2		5	1	8
1.54	5	1	2	6	9	8	4	7	3
ા∵'		٠.						100	

हर रो, कॉलम और 3 बाई 3 के बॉक्स में एक से लेकर न तत्क की मंख्या भी। बहुत आसान

गृहमंत्री ने कश्मीर पर मोदी को दी जानकारी

जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में जम्मू कश्मार के अन्तनाग म ताजा संघर्षों में मंगलवार को एक युवक को मीत होने से कश्मीर में मौजूदा अशांति के दौरन मरने वालों की संख्या यहकर 73 हो गडं और लगातार 60वें दिन जनजीवन अस्त व्यस्त गता। उधर जनवावन अस्त व्यस्त महा। उध्य-गण्य की दो दिवसीय यात्रा से लीट गृहमंत्री गजनाथ मिह ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोती को क्समीर की स्थिति से अवगत कराया। गृह मंत्रालय के सूत्रों ने कहा कि सरकार अलगाववादी नेता हैं। की सुरक्षा कम कर सकती है और उनकी विदेश यात्रा कठिन बना

क्षेत्रीय मंडियों के भाव दिल्ली उत्तर प्रदेश राजस्थान पंजाब

वर आप ज्याचे प्रति विद्याल विस्ता वर्ष आप ज्याचे प्रति विद्याल विस्ता वर्ष आप देशी 2000-2005, व्यक्त मार्च है आप देशी 2000-2005, व्यक्त मार्च है कि एम देशी 2000-2005, व्यक्त मार्च मार्च है कि एम देशी 100 किया है जिस अप ते किया है जिस कर करने विस्ता अप ते तहां कि एम देशी 100 किया है जिस कर करने किया है किया ह

युज्यसीमाँ सामित्र कार्याक्रण अपूर्वामीमाँ सामित्र कार्याक्रण अपूर्वामीमाँ सामित्र कार्याक्रण अपूर्वामी सामित्र कार्याक्रण अपूर्वामी सामित्र कार्याक्रण अपूर्वामी कार्याक्रण अपूर्वामी कार्याक्रण अपूर्वामी कार्याक्रण अपूर्वामी कार्याक्रण अपूर्वामी कार्याक्रण अपूर्वामी कार्याक्रण अपूर्वामीमाँ अपूर्वामीमाँ

(पेंड) १५६० १५७७, संस्कों सूज १०/४४००, विमास खल २६५०/५५६०

4350/4400, বিশালো জাত — জাঁ**থ্য** ঠাঁ<mark>থু 1</mark>65/1775, জাঁ 1530/1550, ঘাঁঘটোৰ সম্প্ৰী 5400/5860, স্বাহ ডিলীৰম (ऑलपेड)5575-9800, স্বাহত্যস বৰ্ণাগঠনাত,

१५८८ वर्षा (१४८५) १५ वर्ष (१ - वर्ष) १५८८ वर्ष (१ - वर्ष) १५८ वर्ष (१ - वर्ष) १५८८ वर्ष (१ - वर्ष) १५८ वर्ष (१ - वर्ष) १८ वर्ष

फाजिल्का फार्टिन स्थान क्षेत्र क्षेत्र (प्रति मान)ः (जेन अस्त्री वेश्यावंवरः), रुई (प्रति मान)ः (जेन अस्त्रा (विवे.), रू. विनीता (देक्सपेडः) खनः १६ १५/२१६०, जेन्डवः (चित्रकी) १९५०/१७४८ माणान्यकारः